१२८ नवग्रहाद्यादि इष्ट
देवता पूजा

१२८ भवभवान्यादि
श्रेष्ठ देवतापूजा

ॐ नमः श्रीनाथाय॥ ॥श्रीभैरव उवाच॥ ॐ जय त्वं मालिनी देवी
निर्मले मलनाशिनी॥ ज्ञानशक्तिप्रभुर्देवी बुद्धिरूपे नजवर्द्धिनी।
जननी सर्वभूतानां संसारेस्मिन् व्यवस्थिता॥ माता वीरावली दे
वी कारुण्यकुलवत्सले॥ जयानिन्तपरमनन्तनिर्वाणसम्भूतितेजो
मयी निरञ्जनाख्ये क्रमरूपपरा ज्ञानशक्तिस्त्वमिच्छाक्रियामंगला
रुद्री रौद्री प्रभुना सूक्ष्मा नागेन्द्रा वक्रगा तालाकालरूपा प्रभुता दशक्ति
संसारे गोप्यमूर्ताकुलाख्या निरूपाशिवा ज्येष्ठा नामा च वामा च रौ
द्री मनाख्या अम्बिकाबिन्दुरूपा वर्णनादं च डाकिनी त्वं प्रकी
र्त्तिता प्रभ्रमक ओंकार हंकार संयुक्ते समस्त त्वमापगते नत्वत
त्वमगाख्या रहस्याय नौ आदितः स्थाने तत्त्वो उड्डियाने निरूपा च
श्रीकण्ठ सर्वकर्णी तत्र माता तथा नन्दशक्तिः संभूश्यातित्रिमूर्त्ति म
नाथो सर्वभूतार्थ भूतनिधि शान्तिका स्थाना भूता हरा रवा चन्द्री
शम्भु किशाम्भवा निका अनुग्रही च हेरातिता त्वं महासेन संयोगि
नी श्री ह्रीं तत्प्रनाद बिन्दुसर्वग्रहनी संदह हस्तुना पेचमम क्य
तानं पानं वा पाशी स्थूप्रदभैरवी भैरवी डाइनी कौजानशक्ते परा
मालिनी सर्वदा नाचिन तत्र शक्तिः स्वगी सिद्धियोगेश्वरी सिद्धि
मालाविभूषा च दया शीतिया नारायणी वारितेश्वजाशिवा सिद्धि
वागीश्वरी मान काम नित्य मिडाकिया मगलानाम सिद्धि स्वरूपा चि

नित्यं भक्तिः शु[illegible]तिमतिः शाश्वती ख्याति नारायणी रक्तचंडी कराले[illegible]ना
भीमरूपा म[illegible] सूक्ष्मा योगविद्या तेजयन्त्या जिता ऋद्धसंमोहिनी त्वं नवा
[illegible] [illegible] त्संग पाताल नाम मंत्रमाला गुह्यमौ [illegible] मि मोहमि वीरूपा
[illegible] :चमत्प्रस्व[illegible] दैवी पंचामृते दिव्यपानी नमवेमुंड [illegible] कास्त्का
[illegible] द्विजन्मा [illegible] पंचवर्ग [illegible] जन्माद्य [illegible] भवेत्स्तेषु
[illegible] मि[illegible] समयमा म[illegible] येयो गवि [illegible] ह्लनोजा [illegible] मुंडक
[illegible] दिव्य [illegible] त्रसकुभ्मं त्रमकार[illegible]कारः [illegible] कार
[illegible] [illegible] ककार मातिम [illegible] [illegible] मि [illegible] महत्मा [illegible]
[illegible] पादमि [illegible] भिक्षु[illegible] नमि [illegible] योगमि [illegible]
गी [illegible] [illegible] डीडा रसेंद्र [illegible] योगिनी योगसिद्धि प्रदे देवि त्वं पप्रपद्ये

[illegible] [illegible] गौ[illegible] मंपश्यसेन स्याद्[illegible] नि[illegible]स्थितामप्रपाताल
संस्[illegible] [illegible] हृत्वा वर्ते मेभक्ति नोयः परे देद कं[illegible] कानिदिकालं
[illegible] चतुः [illegible] चपद्म[illegible] चाहो [illegible] चिमस्म रेशम[illegible] दामानदः [illegible] चोर
[illegible] नीत्रैव संरक्षेदवि[illegible]त्रा[illegible] महालक्ष्मी प्रदे हेमयौ
[illegible] [illegible] [illegible] पुण्ये पुमहादेव [illegible] विष्णु चेति सं[illegible] देवी
[illegible] [illegible] चंद्रकान्त रदिव्यमालिनि [illegible] कुं [illegible] थ
[illegible] [illegible] [illegible] नागपाशे [illegible] [illegible] दानवे [illegible] पितं नाम
[illegible] [illegible] [illegible] तिपारं [illegible] भिः सं [illegible] पापारविंद [illegible]
[illegible] [illegible] नेत्रः प्रभ[illegible] दत्तो [illegible] चंडा [illegible] प्रद्युम्नी [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] पाकं [illegible] सर्व [illegible] कैभर[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ज्वालनी देवी भैरवन[illegible]नागते

नो [illegible] यविनिर्गताय परमभूरि॥ यदस्य पदम्प्र हंसा आहि [illegible]
यक्षै [illegible] हामि देवेशि कस्य योनिस्थ परमा॥ ॥इति [illegible] नीदद
[illegible] ॥ ॥ ॥नमःस्तुति कायाक ऽऽ वाच॥ नमो स्तुते मातमाय
[illegible] ॥ डाकिनी विभु [illegible] इमासिनी॥ अदेकाम्ब
[illegible] हिता॥ मात्रमः सर्वा त्रिनेत्र स्थे सोपयाविमहेश्वरी॥ म
[illegible] निले दमासे प्राणवायो॥ उकारविग्रहनवस्थे हकारार्द्ध [illegible]
[illegible] धात्रभूस्मे अनन्ते नागसव्य याग्र हका सु [illegible] कलानस्थपुष्पाहिने
कमाश्रिते॥ मक [illegible] महामाया धरदेवीक पूजिते॥ ॥ कक नारी [illegible] स्थे समरे
[illegible] मोदिनी॥ अ [illegible] विंश कवाधारे भाः नीद्रलिंदपुगो॥ विशुद्धदानिमादी [illegible]
[illegible] कलाविद्युष्य [illegible] रेस्थ [illegible] सदाशिव॥ एते पं चमहाप्रेताया
दम [illegible] वामिनी॥ औवे कासननी देवीनमस्ते शाक्ति [illegible] ॥ [illegible]

स्योम्ह [illegible] नं [illegible] विनी॥ विंदुमध्यगता देवी कुटिले [illegible] तुषारकांति
[illegible] ऽवंधिनी॥ डमा [illegible] नेगोश्वेत [illegible] ॥ भूमेय
[illegible] पावितराय सा सैवा [illegible] परमो देवे दृष्टिसो [illegible] मिनी॥ नो
[illegible] भूर्वाहिनी [illegible] यमाने दतालस्त [illegible] स्थिते
नादथांकं [illegible] गुल्म [illegible] कसमनिवेता [illegible] धर्मोधम
[illegible] ॥ काले [illegible] रताक्रांति [illegible] नादा [illegible] ॥ परापरे [illegible] चैतन्ये
[illegible] ईश्वर [illegible] ॥ [illegible] मूले महाप्रहे
विंदुकाजे [illegible] ॥ [illegible] ॥ जयाचा [illegible]
[illegible] अपराजिता॥ [illegible] बीज [illegible] ॥ वं
[illegible] करी [illegible] स्थिता॥ [illegible] नी शक्तिमते नमहाप्रह [illegible]

न्निते ॥ भ्रमरि भ्रामरी गौरी मायाया यंत्रप्रमाथिनी ॥ स्वच्छंदभैरवी देवीस
कोधोन्मत्तभैरवी ॥ वंशाचीनमभ्येत्ये या सदाप्रकीर्तिता ॥ अन
ताख्येकृतचंडे नमः कापालिनी शिवे । हृल्लेखिनी महामाये नमस्ते
तो नभैरवी ॥ दक्षकन्ये विद्युज्जिह्वे नारकाशी भयानने ॥ नमामि दे
व देवेशि भयंकरे घोरस्वरूपिणी ॥ श्मशानभूमिवेगवती उग्रादेवी नमो
स्तुते ॥ योगिनी चंडिका चंडरूपा दुर्गा कात्यायनी शिवा ॥ त्रिनेत्रकी नाम स
माख्याता मातृकाश्चैव कीर्तिताः ॥ ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्ण
वी तथा ॥ वाराही चैव माहेंद्री चामुण्डा भवानन्ता ॥ योगेश्वरी तते
हि देवेशी ... एकस मंगलं ॥ ऐंद्री चैव तु आग्नेयी याम्या नैरृत्य

वारुणी ॥ वायवी चैव कौबेरी ईशाने समुदाहृता ॥ ब्रह्मणी च वरुणा
कोला भद्रकाली जयंतिका ॥ चरित्रे कैकटके चैव कौष्टदेवी तु
वाहकं ॥ आग्नेयी गोरक्षवंड कोधडम्बरभैरवः ॥ कपालधारिणी
ध्वं वसंहारचामुण्डभैरवी ॥ तथा कालीउमा देवी दुर्गा दूतीनमोस्तु
ते भद्रकाली महादेवी चर्ममुंडे भयापहा ॥ महालक्ष्मी महाशां
ते नमस्ते शांतिरूपिणी ॥ भूर्भुवः स्वाहा ... दयानाथ कुरु
ष्व मे ॥ ... महापापये ... वेदिने ॥ यः पठेत् इदं पठ
ते नित्यं त्रिसंध्यं चैव मानवः ॥ ...
भवति ... ॥ श्री

श्रीशिवशक्तिसमरत्वमहामायायाःस्तवराजःसमाप्तं॥ ॥शुभं॥

खनी गुरुयाव मनुस अतिहृयमानयाव... न न व व
१०८ नाव. अक्षरलोकयाथ सनतवः पापिनंनिबा
धम्र. छिलकलयावबनथ्यं. जिनथर्मवृतहनेया
मत्तव हूँसगज्यावव... याल
पारजुयान वान. स्वर्द्धक वाल. थ्रतपापिनीय

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीभवभवान्यादिस्विष्टदेवतापू
जाया यजमानेनाभिचक्रे ॥ आङ्किलसंवत्सरेनु कावाकायायं
अद्यादिकाश्यपगोत्राणां अमुकनामधेयादिनां मम
जनानां श्रीभवभवानीस्विष्टदेव्याः सुप्रशस्त्रुधाराधनजे
न लक्ष्मीसंततिव्यापारेस्मावर्द्धधनागमवंषे कहलयाप
भयत्वापुरसेस्मेभ्युदयमनोभिलषितएतत्रशीघुंफल
प्राप्त्यर्थेमयासंपादितद्रूपचारैरंगदेवदेवीषोडशोप

चारैकागसहित श्रीभवभवानीस्विष्टदेव्याः सुप्रीतये
प्रतिवार्षिकहेमन्तीपुष्यारोहनपूजां कर्तुं श्रीसूर्या
यार्घ्यं नमः ॥ ॥ [illegible] तने ॥ ॐ मोहांधकारेति ॥ भास्क
राय इदमासनं नमः ॥ भास्कराय धूपं नमः ॥ ॥ पूजार्थ
थीपुके ॥ ॐ शिवशक्तिस्वरूपाय व्यापिने विश्वरूपिणा
सर्वविघ्नप्रशमनाय नमस्ते भूतस्वामिने ॥ सिद्धिरस्तु
क्रियारंभे वृद्धिरस्तु धनागमे ॥ पुष्टिरस्तु शरीरेषु शांति
रस्तु गृहे मम ॥ सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं ॥ श्री

पुपुत्रं च कामं च लक्ष्मी संततिवर्द्धनं॥ यथा वा राणउहार
णां शांतिर्भवतु वारणां॥ नत्रै देव विधातानां कवचेभ
वतु वारणां॥ ॥वाक्य॥ कमंडलुपुष्पभाजनेन नमस्कर
मि॥ ॥क्षापांजल स्नानं॥ ॐ गंगाद्यासलिलं पुण्यं सर्व
पापप्रणाशनं॥ पूतक्षेत्यापशुक्रानां स्नानार्थं प्रतिकय
मिते॥ ॥माटुका॥ ॐ ओषधीषु पयोः भूमौ दिव्यान्तरिक्ष
भूमिके॥ पयाधारा पवित्रां ते क्षीरस्नानं प्रतिक्यतां॥
दधि॥ ॐ गोः श्वेताया दधिपुण्यं इमापतिपरिस्थिता॥ नद्य

स्नापयामि त्वां सर्वपापप्रणाशनं॥ ॥घृत॥ ॐ क
पिलाया घृतं श्रेष्ठं अभावेच यज्ञद्रवं॥ भास्करं देवताप्र
णपं स्नानार्थं प्रतिगृह्य कयतां॥ ॥क्षौद्र॥ ॐ मधुमक्षिक
संभूतं देवपितृप्रमोदकं॥ पापौघनाशनं देवी मधुना
स्नापयाम्यहं॥ ॥हानेल खंस्नानं॥ ॐ पावनं सर्वती
र्थानां गंगाद्यासप्तसागराः॥ स्नानं प्रकल्पितं देवीतं स्ना
नं प्रतिगृह्य क्यतां॥ ॥चंदन॥ ॐ इदं मलयसंभूतं चंदनं
हिमशीतलं॥ बीजाक्षत्र चिह्नते गृहाणा मम सिद्धिदं॥

मिद्र्का॥ॐपूर्णावर्द्धनक्षत्रस्थलांद्धनंवीरभूषणां॥गृह
णादेवदेवेसिसिंदूरंवर्गदायकं॥ ॥जनेका॥ॐउपवी
तमिदंदेवीभेरक्षत्रस्थलांघनं॥गृहाणवीरयागस्य
फलंप्राप्नंचजन्मम॥ ॥उत्तुस्वान॥ॐमाल्यानिवि
धाकाराणमालत्याकुसुमोदकं॥स्फेपुराणमकंगंधंगृह
णांतेफलाप्नुये॥ ॥चतामधि॥ॐकुंकुमिदकाभवच्छ
त्रंचिंतामणिसमुन्नमं॥मनोन्मन्यादिदेवेशीसंवृतंप्र
तिगृह्यतां॥ ॥पालाय॥ॐअसापितामिदंपुराणपमंच

सिद्धिर्नजायते॥यवसंमितमानेननतंतुनाघीनवास
सः॥ ॥ताधेहेला॥ॐलाजाप्रक्षेपनंरम्यंराज्यप्राप्तिक
लप्रदं॥गृहाणदेवदेवेशीशुभकांतिवपुःप्रदं॥ ॥
धूपगुग्गुल॥ॐअगुरुगुग्गुरुश्रीवकर्पूरमृगनाभया॥
धूपवासस्थसर्वेषांधूपोयंप्रतिगृह्यतां॥ ॥दीप॥ॐ
भंतेतेजवहिस्तेजएकंकृत्यजगत्पतेः॥त्रिधादेवी
परिभ्रामदीपोयंप्रतिगृह्यतां॥ ॥मजनयेव्जायु॥ॐ
अन्नंमहासंदिव्यंरसैरवड्भिःसमन्वितं॥गृहाणदेवे

वेशीनेवेद्यंप्रतिगृह्यतां॥ ॥इतिषोड्शोपचारः॥
धूपाभक्तोन्मनाकाया॥पुष्पभाजनेनसमर्पयामि॥
आत्मनोनमूर्ध्याघेयाये॥वाक्य॥प्राणायामः॥न
थतपूजा॥ॐ ऐं क्लीं श्रीं [illegible] ह्सौं [illegible] आनंदभू
क्ष्मभैरवशंकरमहाविद्याराज्य [illegible] श्वानंद
नाथाय आनंदभूक्ष्मभैरवीम. [illegible] हाविद्या
राज्येश्वरी [illegible] श्रीं क्लीं ऐं पादुकां पूजय
मि॥श॥म [illegible] न्यासपुजोनलोकपुयो॥ऐंपकु

नदीपायैवि [illegible] ह्रेकुमायैश्रीमाइ॥नन्त्रोचंडिप्रचोद
यात्॥ ॥थोलखंदेवीस्नानं॥ॐ स्वस्तिनइंद्रो॥ ॥
चंदन॥ॐ यदयका॥ ॥सिंदूर॥ॐ त्वयाविष्णुदा॥ ॥ज
ंका॥ॐ यज्ञोपवीतं॥ ॥स्नान॥ॐ याःफलिनी॥ ॥
हानंमर्याघपाये॥वाक्य॥गुरुनमस्कार॥ भरत
आसन॥ॐ कूर्मासनायनमः॥ ॥अथपात्रयान॥
ॐ पद्मासनायनमः॥ ॥वलिस॥ॐ वल्यासनायनमः
देवी॥ॐ पद्मासनायनमः॥ ॥स्वपोदेवीयाजरमम

वास्वव सज्ञाकितने॥ ॐ५ किलिशविच्चे को कनाय ङः
अस्त्राय फट्॥ ॥वज्रपंजरमुद्रा नलाहा हिलाथव
जरे स्वव नतुनानोतेमाकि॥ ॐ५ ऐं हुं फट् वज्रपंज
र स्वाहा॥ ३॥ दीगस्पूजा॥ ॐ५ वसमकुलेश्वम चले
क्रीं हुं फट् स्वाहा॥ १०॥ अर्घपात्र सलाहा पुनावि
शिन्यास॥ ॐ५ किलिशविच्चे कों कनाय ङः अस्त्राय
फट्॥ ३॥ करशोधनं॥ ॐ५ नमो भगवती हस्कमन
ये क्रों अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ५ हस्ख्फ्रें कुब्जिकायै कुलदी

पायै क्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा॥ ॐ५ क्रां क्रीं हूं वर्वरशिखे हुं
मध्यमाभ्यां वौषट्॥ ॐ५ घोरे अघोरे अघोरामुखीव
पायै हें अनामिकाभ्यां हुं॥ ॐ५ कों छीं मदंताके
ये क्रौं कनिष्ठाभ्यां वषट्॥ ॐ५ किलिशविच्चे कों कनाय
ङः करतलपृष्ठाभ्यां फट्॥ ॥योनिमुद्रानवक्रन्या
सा॥ ॐ५ हस्ख्फ्रें कुब्जिकायै कुलदीपायै क्रीं महालक्ष्मी
उत्तरवक्त्राय स्वाहा॥ ॥उत्तरस॥ ॐ५ घोरे अघोरे अ
घोरामुखी योगिनि पूर्ववक्त्राय क्रों॥ ॐ५ नमो भगव

ॐ गौडमादेवी पश्चिमवक्त्राय नमः॥ ॥पश्चिमा॥ ऐं ५ ह्रां
ह्रीं ह्रूं ववेरशिखे हूं कालिकाये दक्षिणवक्त्राये वौषट्
दक्षिणा॥ ऐं ५ छ्रां छ्रीं महंतारिकाये ह्रां मालिन्ये ऊर्ध्व
वक्त्राय वषट्॥ ॥चोसा॥ ऐं ५ किलि२ विच्चे कौं कन्याय ह्र
परादेवी परवक्त्राय फट्॥ ॥तानं चोसा॥ हृदयादिन्या
सः॥ ऐं ५ नमो भगवती ह्रां हृदयाय नमः॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रें
कुब्जिकाये कुलदीपाये ह्रीं शिरसे स्वाहा॥ ऐं ५ ह्रां ह्रीं
ह्रूं ववेरशिखे हूं शिखाये वौषट्॥ ऐं ५ घोर अघोर अ
घोरामुखी वज्रकपाये ह्रैं कवचाय हुं॥ ऐं ५ छ्रां छ्रीं म
हांतारिकाये ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट्॥ ऐं ५ किलि२ वि
च्चे कौं कन्याय ह्रः अस्त्राय फट्॥ ॥श्रीकुब्जिकाध्यान अ
र्घसाधन॥ ऐं ५ ह्रां ह्रीं ह्रूं प्रस्फुर२ घोर२ तरतनु२ रूप
चट२ प्रचट२ कह२ वम२ धम२ घात२ य२ विघात य२
विघ्न२ हूं३ फट् ह्रौं वाल कौमारी विच्चे पादुकां पूजया
मि॥ ३॥ अर्घपात्रपूजा॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रीं आनंद शक्तिम
हाभैरव महाविद्याराज्येश्वरी ह्स्ख्फ्रीं अर्घपात्राय प

दुकां॥ ३॥ ऐं सां हृदयादिन पूजा॥ ६॥ आवाहनादि
योनिमुद्रा॥ ॥जलपात्र पूजा॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रें आनंदशक्ति
शुक्लभैरवनंदनाथ ह्स्ख्फ्रें आनंदण्ण त्रिभुदमभै
रवीपादुकां॥ ३॥ ऐं क्रों हृदयादि न पूजा॥ ६
मत्स्यमुद्रा नेतो कपुये॥ ऐं ५ कामिकायै विद्महे कु
ब्जिकायै धीमहि। तन्नो चामुण्डे प्रचोदयात्॥ ॥सक
लीकरण हाये॥ ऐं ५ कामिकायै विद्महे॥ ॥भूतशुद्धि
आत्मपूजा॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रें आनंदभैरव ह्स्ख्फ्रें आनंदशक्ति
भैरवी आत्मने पादु॥ ऐं सं चंदनं नमः॥ क्रों चंदनामि
दं ह्रों॥ ह्लें अक्षतं॥ ह्लीं पुष्पं फट्॥ ॥धनमोहनि मार्ध
नं॥ मली चास चीकनं ऐं चो ये देवथि कातयमत
समेत ज्ञोना॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रें ह्स्ख्फ्रें॥ ३७॥ ॥दलखसमनुनय
मली चानोकपुय॥ आसनपूजा॥ ऐं ५ क्रीं पुन
स्नायपादु॥ ॥ज्ञो थ्यांतया ध्याना॥ ऐं ५ क्रीं
नीलांजनतनिभा देवी खड्ग फेटक धारिणी॥ ॥ज्ञाप्रमाल
चरवट्वांग नागपुष्प समपत्रका॥ पुनस्थं चात्रिनेत्रां चवनमा

मिमोहिनी शिवे ॥ अर्घादि ॥ वाक्य ॥ ऐं मोहिनी देव्यै ध्य
ने पुष्पं पाद्य ॥ ॥ अंजलि ॥ ऐं ५ ऐं क्रौं मौं मोहिन्यै पा
२ ॥ ॥ सर्वसौभाग्य दायिनी मुद्रा ॥ ऐं ५ सुर्वजनमो
हिन्यै पाद्य ॥ वलि ॥ ॥ अं दपुजो ने मालिनी वोने ध्रूं व
ली मतिये ॥ पंचवलि ॥ ऐं ५ मयूरासनाय नमः ॥ ऐं ५ श्री
क्रौं कुल पुत्र वटुकनाथाय वलिं गृह्न २ स्वाहा ॥ ऐं नरा
सनाय नमः ॥ ऐं क्षां क्षेत्रपालाय वलिं ॥ ऐं सिंहासनाय
नमः ॥ ऐं यां योगिनीभ्यो वलिं ॥ ऐं प्रेतासनाय नमः ॥ ऐं

ग्लौं सिद्धिचामुण्डायै वलिं ॥ ऐं मूषासनाय नमः ॥ ऐं ग
ऌं गणपतये वलिं ॥ ॥ सप्तये ध्याने जो ने दे
वाङ योनि मुद्रा गज मुद्रा ॥ विंज्या २ ॥ ॥ स्तोत्र ॥ ऐं देवी
पुत्रं विशालं तरुणशशिकरं क्षेत्रपालं त्रिनेत्रं यां देवी यो
गिनीभिः सकलभयहरं रक्तचामुण्डिकाख्यं ॥ नोभिस्त्री
विघ्नकेशं परमसुखकरं पंचकं यगनं च तत्त्वकै पूजकानां
हरतु भयसदा सम्प्रदानं करोतु ॥ ॥ त्रिवलि ॥ श्री संवर्त
ऐं भूं अनंतमाडलश्री आदिनाथ पादु ॥ ऐं नरासनायन

मः॥ ऐं ह्रां क्षत्रपालाय पाद्यं॥ ३॥ बलि॥ ॥ ऐं मण्डूकासना
यपाद्यं ह्रां ऐं ह्रां कुलपुत्र वटुकनाथाय पाद्यं॥ ३॥ बलि
ऐं मूषासनाय ह्रूं नमः॥ ऐं ह्रां गणपतये पाद्यं॥ ३॥ बलि
मन्त्र यैछाय्॥ दराङ्‌ नजेनी ह्रीं गजमुखा॥ विद्यां॥ ३॥
स्तोत्र॥ ऐं क्षेत्रेशं वटुकेशं च गणेशं विघ्नहारकं॥ संपूज्य
विधिवद्भक्त्या नमामि चत्रिदेवकं॥ ॥ अथ देहन्यासः॥
हां सिरस्थाने पाद्यं॥ सं शिखास्थाने पाद्यं॥ क्षं ललाटे पाद्यं॥
मं वक्त्रे पाद्यं॥ लं हृदि पाद्यं॥ वं नाभि पाद्यं॥ रं गुह्य पाद्यं॥ यं

जानुभ्यां पाद्यं॥ ऊं पादाभ्यां पाद्यं॥ ॥ आत्मपूजा॥ अथ नि
त्यपूजायां गृहासनं निस्यं हेतुकादि तपूजायाये॥ ॥ वि
शेषन्यासः॥ ऐं ५ ह्रां अस्त्राय फट्॥ ३॥ करशोधनं॥ ऐं
५ ह्रां अंगुष्ठाभ्यां ह्रां नमः॥ ऐं ५ ह्रां तर्जनीभ्यां स्वाहा
ऐं ह्रीं ५ ह्रां मध्य ह्रूं माभ्यां वौषट् ह्रीं ऐं ५ ह्रां अना
मि ह्रूं का ह्रीं भ्यां हुं॥ ऐं ५ ह्रां कनि ह्रूं ष्ठाभ्यां वषट्
ऐं ५ ह्रां क ह्रूं रतलपृष्ठाभ्यां ह्रूं फट्॥ ॥ हृदयादि॥ ऐं
५ ह्रां ह्रीं हृदयाय नमः॥ ऐं ५ ह्रां सिरसे स्वाहा॥ ऐं

क्ष्मां शिखायै वौषट्॥ ऐं ५ क्ष्मीं कवचाय हुं॥ ऐं ५ क्ष्मूं ने
त्रत्रयाय वौषट्॥ ऐं ५ क्ष्मैं क्ष्मौं अस्त्राय फट्॥
ह्रीं हृदयादि॥ ध्या॥ आवाहन मुद्रा पूजा॥ ऐं आधार ॥
दि॥ पा॥ ऐं ५ नानामनाय पादुकां॥ ॥अ श्रीभवानन्दाख्या ना॥
ऐं ५ त्र्यक्षं करालवदने स्वाभं पिंगोर्द्ध्वकेशकं॥ नागाद्यमा
नादिभूषांगं खड्गवराभयं ध्यायेत्॥ अघादि॥ वाक्य॥ ऐं ५
भवाय स्थानपुष्पारोहनमनुपादुकां॥ ॥आवाहन स्था

पन संनिधान संनिरोधन कवचीकरण अवगुण्ठन
धेनुपद्मीकरणमुद्राकेन॥ ऐं ५ भवाय पाद्यं नमः॥ स्ना
न चंदन सिन्दूराक्षत यज्ञोपवीत पुष्पं नमः॥ अंज
लि॥ ऐं ५ क्ष्मूं भवाय पादुकां॥ ३॥ बलि॥ ॥अघोरा॥ ऐं
अघोरे ह्रीं [illegible] ॥ क्ष्मां पादुकां॥ बलि॥ ॥वज्रिनी॥ ऐं ५
वज्रकुब्जि[illegible]नी [illegible] हूं त्रैलोक्याकर्षणि ह्रीं क्लीं
मांगद्रा[illegible] क्लीं [illegible] महा [illegible] क्षोभकारिणि ऐं सौं सः फ

ड॥ बलि॥ ॥बन्हिशी॥ ऐं ५ नमो भगवती॥ बलि॥ क्रों ह
दयादि॥ ६॥ बलि॥ ॥पीठपूजा॥ ऐं ५ ह्रां ह्रूं असितां
गभैरवपादु ह्रूं॥ बलि॥ ऐं ५ ह्रां ह्रूं रुरुभैरवपादु ह्रूं॥ ऐं ५ ह्रां
चण्डभैरवपादु॥ ऐं ५ ह्रां ह्रूं क्रोधभैरवपादु॥ ऐं ५ ह्रूं
ह्रां उन्मत्तभैरवपादु ह्रूं॥ ऐं ५ ह्रां कपालभैरवपादु
ह्रूं ऐं ५ ह्रां भीषणभैरवपादु॥ ऐं ५ ह्रूं ह्रां संहारभैरव
पादु॥ ब ह्रूं लि॥ ॥ब्रह्माण्यादि॥ ऐं ह्रूं ५ अघोरे अमो

घे वरदे विमले ह्रां अं ब्रह्माण्यपादु॥ बलि॥ ऐं ५ अघो
रे अमोघे वरदे वि ह्रूं मले ह्रां कं माहेश्वर्य्यपादु॥ ऐं ५ अ
घोरे अमोघे वरदे विमले ह्रूं ह्रां चं कौमार्य्यपादु॥ ऐं
५ अघोरे अमोघे वरदे विमले ह्रूं ह्रां टं वैष्णव्यपादु॥ ऐं
५ अघोरे अमोघे वरदे विमले ह्रां ह्रूं तं वाराह्यपादु॥ ऐं
५ अघोरे अमोघे वरदे विमले ह्रूं ह्रां पं इन्द्राण्यपादु
ऐं ५ अघोरे अमोघे वरदे विमले ह्रां ह्रूं यं चामुण्डायपा

ड।ऐं ५ अघोरे अमोघे वरदे विमले श्रीं श्रीं महालक्ष्मी पा
दु।। बलि।। ।।पूर्वाम्नादि।। ऐं ५ अं आं इं ईं उं ऊं ऋं ॠं लृं ॡं
लृं एं ऐं ओं औं अं अः प्रयागक्षेत्रे असिताङ्गभैरव ब्रह्मा
णी विच्चे पादु।। बलि।। ।।ऐं कं खं गं घं ङं वरुणाक्षेत्रे
रुरुभैरव माहेश्वरी विच्चे पादु।। ।।ऐं ५ चं छं जं झं ञं को
लापुरीक्षेत्रे चण्डभैरव कौमारी विच्चे पादु।। ।।ऐं टं ठं
डं ढं णं अट्टहासक्षेत्रे क्रोधभैरव वैष्णवी विच्चे पादु

।। ।।ऐं तं थं दं धं नं जयन्तीक्षेत्रे उन्मत्तभैरव वाराही वि
च्चे पादु।। ।।ऐं पं फं बं भं मं चरित्रक्षेत्रे कपालभैरव इ
न्द्राणी विच्चे पादु।। ।।ऐं यं रं लं वं एकाम्रकक्षेत्रे भी
षणभैरव चामुण्डायै विच्चे पादु।। ।।ऐं अं अः शं षं सं हं दे
वीकोटक्षेत्रे संहारभैरव महालक्ष्मी विच्चे पादु।। बलि।। ।।
दथूसा।। ऐं ५ ख्रां ख्रीं वारुणा मण्डलभैरव स्वशक्ति मध्ये चा
धिपति पादु [illegible] ।। बलि।। ।।अष्टवर्ग।। ऐं ५ अं आं

इँ ईँ उँ ऊँ ऋँ ॠँ ऌँ ॡँ एँ ऐँ ओँ औँ अं अः अवर्ग ललाप्रेयाग
आश्राये सर्वमंगल वेश्वाये इं डाक्षकुंड्रिकाये अक्षभैर
वपादु॥ वलि॥ ॥ऐं कं खं गं घं ङं कवर्ग पुरवेवा॥ ॥श्वपादु
लाये महेश्वर्ये चर्चिकाये भूतिये अंग्रपकुंड्रिकाये इक्ष
भैरवपादु॥ ॥ऐं चं छं जं झं ञं चवर्ग करा कोलापुरी कुलाये
२१ कौमार्याणाये केवर्ति न्यायाम्पकुंड्रिकाये उक्षभैरवपादु॥
ऐं टं ठं डं ढं णं टवर्ग हृदये अट्टहासे कं घाये वेष्णवी हरसि
द्धि पीठ न्ये नैऋत्य कुंड्रिकाये ऋक्षभैरवपादु॥ ॥ऐं तं थं
दं धं नं तवर्ग नाभोजयं न्यापुरी लक्ष्माये वाराही भद्रारका
ये करा डुवीवारुणपकुंड्रिकाये लृक्षभैरवपादु॥ ॥ऐं पं फं
बं भं मं पवर्ग गुह्ये चरित्रे ऐन्द्राये इन्द्राणी रजा कन्ये वायव्य
कुंड्रिकाये एक्षभैरवपादु॥ ॥ऐं यं रं लं वं यवर्ग जानुनि
पकाभृक ओवाये चामुण्डाये कालरात्री हिवकि लिकि
लिकिलाये कौवेरी कुंड्रिकाये ओक्षभैरवपादु॥ ॥ऐं शं

ऐं में ह्रीं श्री वगं पादयो देवी को ॐ ह्रां यें महालक्ष्मी देवि
नी को दक्षिके शान्ये कोत्रिकायें अः क्षभैरवपादु। वलि॥
देन कादि॥ ऐं पहेतु कं पूर्वपीठेन आग्नेयाय द्विपुरान्तकं॥ द
क्षिणा त्वाग्नेवेता रं आनेरजि कोतुने ऋन्ते॥ कालाख्यं वाह
नो पीठेवाय क्लां उ कालानिनं॥ उत्तरे देवेकपादं तेनं ऐशान्यां भी
मरूपकं॥ पादु॥ वलि॥ ॥आवाहनं स्थापनं संनिधा
नं संनिरोधनं कवचीकरणं अवगुण्ठनं धेनु परमीक
रणं त्रिभूलमुद्रा विद्युतारः॥ ॥ध्यानं यथावत्॥ न्यास

ऐं पंचह्रीं॥ अस्त्राय फट्॥ अ आ कां खों थवनां॥ ऐं पं ह्रीं अंगु
ष्ठा भ्यां नमः॥ ऐं पं ह्रीं तर्जनी॥ मध्यमा स्वाहा ह्रीं॥ ऐं
पं ह्रीं अनामिका भ्यां वौषट् ह्रीं॥ ऐं पं ह्रीं अनामिका
भ्यां हुं॥ ऐं पं ह्रीं कनिष्ठाभ्यां वषट् ह्रीं घटो॥ ऐं पं
ह्रीं करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्॥ ॥हृदयाद
ऐं पं ह्रीं हृदयाय नमः॥ ऐं पं ह्रीं शिरसे स्वाहा
ऐं पं ह्रीं शिखायै वौषट्॥ ऐं पं ह्रीं कवचा

पहो॥ ऐं प ह्रीं नेत्रत्रयाय वषट्॥ ऐं प ह्रीं अस्त्राय
फट्॥ ऐं प ह्रीं सां हृदयाय नमः॥ इ० ह्रीं आसन
पूजा॥ ऐं आ धारादि अनन्त पृथ्व्यासनाय पादुका॥ ऐं सिं
हासनाय पादुका॥ ॥अर्घ्यस्थापनं पात्रस्थापनं॥ ऐं प श्रुं
[illegible] रक्त [illegible] चिन्ता॥ [illegible]
[illegible] कलौ॥ ऐं प ह्रीं भवानी पाद
॥ ॥अर्घ्यादि॥ [illegible]॥ श्रीभवानी हृ ह्रीं भवानीउपा

रोहन ध्यान पुष्पं पादुका॥ ॥ [illegible]॥ ऐं प ह्रीं भवा
नी पादुका॥ २॥ ऐं प भवानी पादुकां नमः॥ गन्ध ह्रीं भच
दन सिन्दूरादि यज्ञोपवीत पुष्पं नमः॥ ॥आवाहने
स्थापने॰ सन्निधाने॰ संनिरोधने॰ रूपवत्ती करणं॰ अवगु
ण्ठने॰ धेनुपद्मीकरणमुद्रा॥ ॥हृदयादि पूजा॥ ऐं सां
हृदयाय नमः॥ इ० [illegible]॥ ॥परिवार पूजा॥ ऐं ह
तुकं पूर्वपीठे आग्नेयां त्रिपुरान्तक॥ दक्षिणे [illegible]
तार अग्नि जि [illegible] नैऋते॥ [illegible] वायव्यां [illegible]


पञ्चांतु करालिनीं ॥ ऊर्ध्वे हे कपालं तु ईशान्यां भीमरूपकं
ऐं ५ पादुकां बलिं ॥ ॥ऐं पूर्वे गात्र कालं तु अट्टहासम
ज्येष्ठिका ॥ चौरेव कैकाणु कं च देवी कोटं तु चामुण्डायां ऐं
५ पादुकां बलिं ॥ ॥ऐं ५ श्रीं अं ब्रह्माणि विच्चे पादुकां ऐं ५
श्रीं कं माहेश्वरी विच्चे पादुकां ऐं ५ श्रीं चं कौमारि वि
च्चे पादुकां ऐं ५ श्रीं टं वैष्णवी विच्चे पादुकां ऐं ५ श्रीं
तं वाराहि विच्चे पादुकां ऐं ५ श्रीं पं इन्द्राणि विच्चे पादु

॥ऐं ५ श्रीं यं चामुण्डायै विच्चे पादुकां ऐं ५ श्रीं शं महाल
क्ष्मी विच्चे पादुकां बलिं ॥ ॥ऐं ५ असितांग रुरु चण्ड
रौद्र क्रोध उन्मत्त भैरवः ॥ कपाल भीषण संहार
व चामुण्डायां ऐं ५ पादुकां बलिं ॥ ॥ऐं चण्डा चण्डवती
च चण्डनायिका चण्डरूपा चण्डवती चैव चण्डरूपा
प्रचण्डनायिका ॥ ऐं ५ पादुकां बलिं ॥ ॥ऐं ५ श्रीं जं
जया पादुकां ऐं ५ श्रीं विजया पादुकां ऐं ५ श्रीं अ

जितायेपादुका॥ऐं५ पश्रीं अपराजितायेपादुका॥ऐं५ पश्री
जंभनायेपादुका॥ऐं५ पश्रीं स्तंभनायेपादुका॥ऐं५ पश्री
मोहिनीयेपादुका॥ऐं५ पश्रीं आकर्षणीयेपादुका॥ विधि
॥ ॥ आवाहन॰ स्था[illegible] पन॰ सन्निधान॰ संनिरोधन॰ स
कलीकरण॰ धेनु॰ पञ्चीकरण॰ योनिमुद्रा॥ विद्या॥ ३॥
॥ ॥ वासनतेवथपूजा॥ न्यासः॥ऐं ह्रीं क्लीं अस्त्राय
फट्॥ ३॥ करशोधनं॥ऐं ३ अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ऐं ३ त

र्जनीभ्यां स्वाहा॥ऐं ३ मध्यमाभ्यां वौषट्॥ऐं ३ अनामि
काभ्यां हुं॥ऐं ३ कनिष्ठाभ्यां वौषट्॥ऐं [illegible] करतल
[illegible] फट्॥ [illegible] यादा [illegible] हृदयाय नमः॥ऐं
३ शिरसे स्वाहा॥ऐं ३ शिखायै वौषट्॥ऐं ३ कवचाय
हुं॥ऐं ३ नेत्रत्रयाय वौषट्॥ऐं ३ अस्त्राय फट्॥ ॥
आसन पूजा॥ऐं ३ वज्रभासनाय नमः॥ ॥ अथ ध्या
नं यथा॥ऐं ५ एकवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागकृत्तमं

डितं ॥ जगन्नृत्येशिन्दुं श्वेतवर्णं भुजा स्वलौ ॥ षोड
श भुजा कलाकांतं तं देवं परमेश्वरां ॥ डमरु वाद्य नृत्य
पं दमरुं च त्रिशूलकं ॥ त्रिदण्ड शर वज्रं च कर्त्रिक मभ
मालिकं ॥ तथा वामे नृत्यरूपं खट्वांगं पद्मेव चापानी
गधनुं तथा घण्टां कपालं च कमण्डलं ॥ सहस्त्र सूर्य
संकाशं कल्पाग्नि वं च नृत्येशं ॥ वृषारूढ समास्थाय नृत्य
गीतेन संयुतं ॥ भैरवं नृत्यरूपेण सर्वालंकार शोभि
तं ॥ एवं ध्यात्वा महादेवं नाट्यकार्यमुसिद्धदं ॥ मान
वानां हितार्थाय सर्वदुरितनाशनं ॥ ॐ प्लौं स्लौं न
त्येश्वराय नृत्यलक्ष्मी पादुका ॥ अर्घादि ॥ ब्लुं [illegible] ब्लुं [illegible] द्ये
॥ ॐ नृत्येश्वराय हिमजानीपुष्पादि हंसं ब्ला [illegible] ब्लुं न
पुष्पं पादुका ॥ ॥ ध्यानम् ॥ ॐ प्लौं नृत्येश्वराय स्लौं न
त्यलक्ष्मी ह्रें ह्रें ह्रें क्रीं क्रौं पादुका स्लुं ॥ ३ ॥ पत्रि ब्लुं
शभुजा ॥ ऐं सहस्त्रभुजाय वं ब्लुं महेनाट्यवाय घं



म[illegible] लिान न्यो न्हन्यपुन्यो दयो नमवाणि ॥ ऐं ह्रूं अं दिनेपा
दु ॥ ऐं ह्रूं भगिनेपादु ॥ ऐं पश्चूलिं शाञ्ची देवी नन्य लक्ष्मी
पादु ॥ वालि ॥ ॥ भूलमा [illegible] लम हरिम
द्वि ॥ न्यासः ॥ ऐं ह्स्फ्रूं अंगुष्ठाय [illegible] फट् ॥ [illegible]
ऐं ह्स्फ्रूं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ऐं ह्स्फ्रूं तर्जनीभ्यां स्वाहा ॥ ऐं ह्स्फ्रूं
मध्यमाभ्यां वोषट् ॥ ऐं ह्स्फ्रूं अनामिकाभ्यां हुं ॥ ऐं ह्स्फ्रौं
कनिष्ठाभ्यां वषट् ॥ ऐं ह्स्फ्रूः करतलपृष्ठाभ्यां फट् ॥

[illegible] ॥ ऐं ह्स्फ्रां हृदयाय नमः ॥ ऐं ह्स्फ्रीं शिरसे स्वा
हा ॥ ऐं ह्स्फ्रूं शिखायै वोषट् ॥ ऐं ह्स्फ्रैं कवचाय हुं ॥ ऐं ह्स्फ्रौं
नेत्रत्रयाय वषट् ॥ ऐं ह्स्फ्रः अस्त्राय फट् ॥ आवा
ना ॥ ऐं महाडामराय नमः ॥ ॥ अथ ध्यानं ॥ ऐं
मध्ये नीलां [illegible] भं [illegible] खड्ग कां [illegible]
वामे विं [illegible] कुलमते [illegible]
सकस्थावि [illegible] पविन्नु [illegible] जननी देवने पा [illegible]
पूजा [illegible] [illegible]

कं क्षु विपालि

नैवेद्यं दीपं मध्ये कृत्य सिद्धिर्विदिनापत्तुमां विघ्नश
क्तिना॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रें ह्सौं ह्रीं श्रीं आं क्रों ऐं हुं फट् मजालो ए
ध्यात्वा॥ हृदं ध्यानं पुष्पं पादे गुं अघ्र्यादि बालक्या॥
ऐं अलि॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रें ह्सौं ह्रीं श्रीं आं क्रों ऐं हुं फट् मे
ह्रीं योगिनी विघ्न शक्ति पादुकां॥ अनेन आहत्य पं
श्रीपादुकां ऐं को माति वि द्वे पादा व थ लि॥ ॥ वनवम भा.गोरक्षायेन

ङा॥ विं ड्डा॥ ३॥ ॥ अथ योगाङ्गन्यास॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें
अस्त्राय फट्॥ ३ ॥ करशोधनं॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें अंगुष्ठाभ्यां नमः
ऐं ह्स्ख्फ्रें तर्जनीभ्यां स्वाहा॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें मध्यमाभ्यां वषट्॥ ऐं
ह्स्ख्फ्रें अनामिकाभ्यां हुं॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें कनिष्ठाभ्यां वषट्॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें
अस्त्राय फट्॥ ॥ हृदयादि॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें हृदयाय नमः॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें
शिरसे स्वाहा॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें शिखायै वषट्॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें कवचाय हुं
ऐं ह्स्ख्फ्रें नेत्रत्रयाय वौषट्॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें अस्त्राय फट्॥ ॥ आस

ने पूजा॥ ऐं वृषभासनायनमः॥ ॥अजीरूपानयाध्यानं॥
ऐं पंचवक्त्रं शरानसेवे वृषभनतुगना श्वेतनवर्णं॥ त्रिनेत्री
कायं शक्तिं त्रिशूलं अभयकरधरं विद्रुमुद्रामुसोभं॥ श्रो
सितु घोऽजेनमनालोचनुरकोरधरपीठमध्यमे कराजं माहे
श्री विश्वव्यापी वरजविधफल [illegible] भैरवी श्वेतरूपी॥ ऐं
पञ्चवक्त्रां [illegible] सांसी श्वेत भैरवी रुद्र शक्ति
पादुं॥ ॥अर्घादि॥ वा [illegible]॥ ऐं ५ हेमजाति पुष्पाराह

म ध्यान पुष्पं पादु॥ ॥अंजलि॥ ऐं पञ्चवक्त्रां [illegible]
[illegible] सांसी श्वेत भैरवी रुद्र शक्ति पादुकां॥१॥ ॥परिवार
ऐं [illegible] हरसिद्धि पादु॥ ऐं [illegible] कौमारि पादु॥ ॥सिंदूर
१ [illegible] विंदुं॥२॥ ॥हरसिद्धि भास्कर [illegible] कौमारी॥
न्यासः॥ ऐं [illegible] अस्त्राय फट्॥१॥ करशोधनं॥ ऐं [illegible]
अंगुष्ठाभ्यां [illegible] नमः॥ ऐं [illegible] तर्जनीभ्यां स्वाहा॥ ऐं [illegible]
मध्यमाभ्यां वौषट्॥ ऐं [illegible] अनामिकाभ्यां हुं॥ ऐं [illegible]

ह्रौं कनिष्ठाभ्यां वषट्॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें करतलपृष्ठाभ्यां फट्॥ ॥

हृदयादि॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें हृदयाय नमः॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें शिर

से स्वाहा॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें शिखायै वौषट्॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें कवचा

य हुं॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें नेत्रत्रयाय वौषट्॥ ऐं ह्स्ख्फ्रें अस्त्राय

फट्॥ ॥ ऐं आसनाय ऐं पद्मासनाय नमः॥ ॥ अ

थ ध्यानं॥ ऐं ५ अक्षं [illegible] मुद्गे अंकुश [illegible]

दण्डकाणुं [illegible] शक्तिं [illegible] त्रिशूलं चिन्तयाम

[illegible] हहकोला सुवक्त्रां॥ [illegible] वर्णिनं मानां त्रिभुवनन

मितां याम्यवा [illegible] देवी कौमारी त्रि[illegible]रूपी [illegible] भय

हरी पातु मां ब्रह्मशक्तिः॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रें [illegible] कौं

श्रीं [illegible] बाल कौमारि ब्रह्मशक्ति पादु॥ ॥ अथ [illegible] दि

शा [illegible]॥ ऐं ५ [illegible] आन पुष्प [illegible] पा

दु॥ ॥ अं [illegible]॥ ऐं ५ ह्स्ख्फ्रें [illegible] कौं [illegible]

बाल कौमारि ब्रह्मशक्ति पादु॥ [illegible] ॥ ऐं

ह्रीं [illegible] पादु॥ ऐं [illegible] माहेश्वरी पादु॥ ॥ ऐं [illegible] शक्तिं पु

ग्रा॥ त्रिं द्रा॥ ३॥ बलि॥ ॥मूलमात्वरस्य ब्रावयादपूम
सिद्धिलक्ष्मी॥ न्यासः॥ ऐं ह्रीं श्रीं नमः अस्त्राय फट्॥ ३॥
करशोधनम्॥ ऐं ३ ॐ ह्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ऐं ३ हूं ह्रां तर्ज
नीभ्यां स्वाहा॥ ऐं ३ फ्रूं मध्यमाभ्यां वौषट्॥ ऐं ३ श्रौं अ
नामिकाभ्यां हुं॥ ऐं ३ क्षौं कनिष्ठाभ्यां वषट्॥ ऐं ३ नमः क
रतलपृष्ठाभ्यां फट्॥ ॥हृदयादि॥ ऐं ३ ॐ ह्रीं हृदयाय
नमः॥ ऐं ३ हूं ह्रां शिरसे स्वाहा॥ ऐं ३ फ्रूं शिखायै वौषट्॥

ऐं ३ श्रौं कवचाय हुं॥ ऐं ३ क्षौं नेत्रत्रयाय वषट्॥ ऐं ३ न
मः अस्त्राय फट्॥ ॥आसन॥ ऐं ह्रीं प्रेतासनाय नमः॥
अर्घ्यं स्नानं नयाध्यान॥ ऐं ५ ह्रीं श्रीं कोटिचन्द्रनिभा देवी
रुद्रासनसुसंस्थिता॥ दशहस्ता महेशानी पञ्चवक्त्रा कि
रीटिनी॥ खड्गं त्रिशूलं वरदं चांकुशं भुशुण्डं दक्षिणे॥ खट्वां
गं कपालपाशं च अभयं घण्टां वामके॥ त्रिपंचनयनोपे
तां मुण्डमालामहेश्वरी॥ सर्वाशापूरणी देवी पाहि रक्ष

कृतेश्वरी पूजयेच्च महापात्रे खड्गेन पूजयेत्॥ एवं ध्या
त्वा सिद्धिलक्ष्मी जयलक्ष्मी प्रदायिका॥ ऐं ह्रें ह्रूं क्रां ह्रौं क्रूं
श्रौं क्रौं नमः॥ ॥अर्घ्यादि वाक्य॥ ऐं पद्म जाति पुष्पा रो
हन ध्यान पुष्पं पादुका॥ ॥अंजलि॥ ऐं ह्रीं श्रीं हूं क्रों हूं क्रां
फ्रें श्रौं क्रौं नमः सिद्धिलक्ष्मी पादुका॥२॥ परिवार॥ ऐं खेच
टुक नाथ पादुका॥ ऐं रुद्र चण्डादिभ्यः पादुका॥ ॥कालमुद्रा॥
पंडु॥३॥ थोयाजवसान्न्यासः॥ ऐं कः अस्त्राय फट्॥३॥

करशोधनं॥ ऐं क्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ऐं क्रीं तर्जनीभ्यां स्वा
हा॥ ऐं क्रूं मध्यमाभ्यां वौषट्॥ ऐं क्रैं अनामिकाभ्यां हुं॥ ऐं
क्रौं कनिष्ठाभ्यां वषट्॥ ऐं क्रः करतलपृष्ठाभ्यां फट्॥ ॥हृ
दयादि॥ ऐं क्रां हृदयाय नमः॥ ऐं क्रीं शिरसे स्वाहा॥ ऐं क्रूं शि
खायै वौषट्॥ ऐं क्रैं कवचाय हुं॥ ऐं क्रौं नेत्रत्रयाय वषट्॥
ऐं क्रः अस्त्राय फट्॥ ॥आसन॥ ऐं मयूरासनाय नमः॥ ॥
भैरवीध्यान माध्यान॥ ऐं पद्मबन्धूक पुष्प शंकाशं नखेन्दु कोटि
समप्रभां त्र्यक्षि बिम्बनिभा देवी इन्द्र चन्द्र हसितानना॥ वाम

रूपी महामाया को मारि अक्षररूपिणी ॥ अर्थं चतुर्भुजं का
यें भूला लीशक्ति सूत्र कं ॥ पद्मराग मणि मौली मुकुटं का
र शोभित नाग शिखि राज समारूढ अविघ्नानं शांति कारिणी ॥
[illegible] भाग्य संपदा लक्ष्मी आयुः पुत्र धन प्रिया ॥ सर्व धर्म प्र
दे देवी [illegible] महेश्वरी ॥ आगच्छ तु [illegible] के
कथ सहित कालि ॥ [illegible] देवी सदा [illegible] मि को मारि शुभ
मंगल ॥ ऐं पं क्रों हूं क्रीं को मारि पादुका ॥ [illegible]

क्या ॥ ऐं पं हेमजाती पुष्पा रोहन ध्यान पुष्पं पादुका ॥ अंज
लि ॥ ऐं पं क्रों क्रीं ह्रं क्ष्मां बाल को मारि चण्ड भैरव पादुका ॥ २
परिवार ॥ ऐं क्रों स ब्रं ह्रीं लक्ष्मी पादुका ॥ ऐं पं इन्द्राणि पा
दुका ॥ शक्ति पादुका ॥ विदु गवलि ॥ ॥ सिद्धि लक्ष्मी पाखर
सा [illegible] ॥ ऐं पं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ऐं पं तर्जनीभ्यां
स्वाहा ॥ ऐं पूं मध्यमाभ्यां वौषट् ॥ ऐं पं अनामिकाभ्यां हुं
ऐं पं कनिष्ठाभ्यां वषट् ॥ ऐं पं करतलपृष्ठाभ्यां फट् ॥
हृदयादि ॥ ऐं पं हृदयाय नमः ॥ ऐं पं शिरसे स्वाहा ॥ ऐं पूं

शिवाये वौषट्॥ ऐं वैं कवचाय हुं॥ ऐं वौं नेत्रत्रयाय वषट्
ऐं वः अस्त्राय फट्॥ ॥ आसन॥ ऐं गजासनाय नमः॥ ॥
अंजीं नीलया ध्यान॥ ऐं पश्चके भारि सहस्राक्षी कुंकुमारु
णाविग्रहं॥ कुरस्वरि सदादेवी सर्वालंकारभूषिणी॥ चतु
र्भुजा त्रिशूल आसी घंटा धारण विधारिणी॥ महावज्रधरा
देवी स्थिता ऐरावत नागजा॥ नानापुष्परता देवी नानार
त्नविभूषिता॥ नानागंधविलिप्तांगी नानावस्त्रविरा
जिता॥ चीरे च महाक्षत्र करंज वृक्षवासिनी॥ वायुपी

ठस्थिता नित्यं शक्रेश्वरी नमोस्तुते॥ ऐं पां पीं पूं प्रां पं
इंद्राणि पादु॥ ॥ अर्घादि॥ वाक्य॥ ऐं पहमआतो [illegible]
[illegible] हनन्या नपुष्पपादु॥ ॥ पुष्पांजलि॥ ऐं पां पीं पूं
प्रां इंद्राणि कपालभैरव पादु॥ ३॥ परिवार॥ ऐं द्रीं सि
[illegible] लक्ष्मी पादु॥ ऐं कूं बाल कौमारि पादु॥ ॥ छत्रमु
द्रा॥ [illegible]॥ ३॥ ॥ [illegible]॥ न्यासः॥ ऐं
वः अस्त्राय फट्॥ ३॥ आकर्षणादि॥ ऐं वां अंगुष्ठाभ्यां नमः
॥ ६॥ हृदयादि॥ ऐं वां हृदयाय नमः॥ ६॥ आसन॥ ऐं

महिषासनाय नमः ॥ ॥अजीर्णां नयाध्यानं ॥ ऐं ध
वाराही घोररक्तांगी रक्तकेशी महोदरी ॥ दंष्ट्राकरा
लगंभीरा बालार्कनेत्रलोचनी ॥ कपालमालाभर
णा विचित्रपुष्पशोभिता ॥ महामहिषमारूढा ज्व
लिताग्निसमप्रभा ॥ पीनांकुशकर्तिकादण्डहस्ता
भरणभूषिता ॥ त्रिनेत्रा ज्वलितं देहा दुष्टदर्पवि
नाशिनी ॥ जयंती क्षेत्रसंस्थानी निंबवृक्षसमाश्रि
ऐं पहेमजातीपुष्पारोहनध्यानपुष्पं पादुं ॥ अंजली ॥ १
ता ॥ नागपीठस्थिता नित्यं कोलरूपी नमोस्तुते ॥ ऐं
भ्वां भ्वीं भ्वूं भ्वां वाराही पादुं ॥ ॥ अर्घादावाक्यं ॥ ऐं प
भ्वां भ्वीं भ्वूं भ्वां भ्वूं वाराहीउन्मत्तभैरव पादुं ॥ ३ ॥ परिवार
ऐं भ्वूं भ्वां भ्वूं रापः दिम्वा पादुं ॥ [illegible] पुजा विडा ॥ २
वालि ॥ ॥ धाम समीमा ॥ न्यासः ॥ ऐं भः अस्त्राय फट्
॥ करशोधनं ॥ ऐं भ्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ दा ॥ हृदय
दी ॥ ऐं भ्रां हृदयाय नमः ॥ दा ॥ आसन ॥ ऐं रक्तप
द्मासनाय नमः ॥ ॥ अजीर्णां नयाध्यानं ॥ ऐं पभी

भंभीतिहरं रूपं द्विभुजं च गदाधरं॥ सौवर्णं पीतवास
चमितयज्ञोपवीतिनं॥ नानाभरणशोभाढ्यं स्मित
वक्त्रमनोहरं॥ प्रफुल्लकमलाभासं चारुयुग्मने
त्रकं॥ ध्यायेहं परमेशानिं डोपदिसं दशिमिवा॥ वरा
भयकरां देवीं नानाभरणभूषितां॥ तप्तकाञ्चनवर्णा
भां त्रिनेत्रां नयनोज्वलां॥ एवं ध्यात्वा जयेद्देवीं भक्ता
नां अभयप्रदां॥ ॐ भोंभों भूं भ्रूं डों ड्रं हं त्रुं भामडोय

दिशक्तिपादु॥ ॥अर्घ्य पा॥ वाक्य॥ ॐ पहेमजाती
प्रख्या रोहनधान पुष्पं पादु॥ ॥पुष्पांजलि॥ ॐ पभ
भीं भूं भ्रूं डां डीं दं भ्रां फ्रां फ्रीं फ्रूं भाग रमेश्वर डोपद
शक्ति भूं पादु॥ त्रुं भूं वलि॥ परिवार॥ ॐ भूतभू
मी हिं हिं वा पादु॥ धेनु योनिमुद्रा॥ बिंदु॥ ३॥ ॥ इति
गणेशन्यासः॥ ॐ गः अस्त्राय फट्॥ ३॥ करशो
धनं॥ ॐ गां अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ६॥ हृदयादि॥ ॐ गां

हृदयायनमः॥ ६॥ आसन॥ ऐं गों महामूषासना
यनमः॥ ॥अंजलिस्थांनयाध्यान॥ ऐं गजवक्त्रंगौरो
रां चतुर्भुजं त्रिलोचनं॥ तुन्दलं त्र्यंमुगाद्हस्तंकि
तवक्त्रंसुशोभनं॥ व्यालयज्ञोपवीतेनचन्द्रत्त्वंतभू
नवसीकं॥ नानालंकारशोभाढ्यंमिष्यितंवरदायकं
ऐं गांगींगूं ग्लूं सौंगणपतिबुद्धिमतीशक्तिपादु॥ ॥
अर्घादि॥ ग्लूं वाक्या॥ ऐं पञ्चमजातीपुष्पातिरनेवा
नपुष्पंपादु॥ ॥अंजलि॥ ऐं पगांगींगूंग्लूंसौंगण

पतिबुद्धिमतीशक्तिपादु॥ ३॥ परिवार॥ ऐं नंदिभृंगि
पादु॥ बलि॥ ॥गजमुजा॥ बिंदा॥ २॥ दोहचाचामु
डा॥ न्यासः॥ ऐं वः अस्त्रायफट्॥ ३॥ करशोधन॥ ऐं
वां अंगुष्ठाभ्यांनमः॥ ६॥ हृदयादि॥ ऐं वों हृदया
यनमः॥ ६॥ आसन॥ ऐं प्रेतासनायनमः॥ ॥अ
ञ्जलिस्थानेयाध्यानं॥ ऐं चामुण्डाचण्डवदनाकोटरा
क्षीसुभीषणा॥ दंष्ट्राकरालवदनादंतपंक्तिशुभोज्व
ला॥ अरुणरूपधरादेवीकरामुण्डप्रलंबिनी॥ निर्मांसा

स्नायुमंदोप्रावल्लौगराडस्थलाडभौ॥ खड्गजा च मह
उग्राखल्वाचोदरमेध्यगा॥ लंवस्तनीं चपृस्मांगी श
नयानोपरिस्थिता॥ कायत्रिशूलमुराडं च वामस्था च
विराजिता॥ कर्तृकाडमरुं पाशं दक्षिणेनकरोद्यता॥
मुराडमालामहादीप्ताम्स्कंधपादांतलंविता॥ सर्वाभर
णासंपूर्णा महारौद्राभयानना॥ दक्षिणेन च पादेन
शवोपरिसुसंस्थिता॥ वामपादेन वै देवी चैकपादाव
स्थिता॥ चामुराडाकथिना देवी विघ्नभयविनाशिनी॥

ऐं वां वीं वूं मूं चामुराडाभीषणाभैरवपादुका॥ अर्घावि
धाकृत्य॥ ॐ ऐं पहमज्ञातीपुष्पारेहनपुष्पंपादुका॥
पुष्पांजलि॥ ऐं ऐं वां वीं वूं मूं चामुराडाभीषणाभैरव
पादुका॥ ३॥ परिवाराहि ॐ हृद्वराग्नादिपादुका॥ वलि
महामुद्रा॥ त्रिकु॥ ३॥ ॥ महादेवा॥ न्यासः॥ ऐं कुः
स्वायफट्॥ ३॥ करशोधनं॥ ज्ञां अंगुष्ठाभ्यां नमः॥
दा॥ हृदयादि॥ ज्ञां हृदयाय नमः॥ दा॥ आसनं॥
ऐं हृं षभासनाय नमः॥ ॥ अजांस्वोनयाध्यानं॥ ऐं

पंचास्यं शुभ्रदेहं च व्यालालंकृतभूषितं॥ व्याघ्र
जिनपरीधानं वृषारूढमहं भजे॥ ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं म
हादेव पार्वती शक्ति पादु॥ ॥अर्घादि॥ पाद्यं॥ ॐ
हेमजाती पुष्पारोहन ध्यान पुष्पं पादु॥ ॥ध्यं जा
ॐ पं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः महादेव पार्वती शक्ति पादु॥ १॥
परिवार॥ ॐ ग [illegible] श कुमार पादु॥ बलि॥ ॥लिं
गमुद्रा॥ विंदु॥ २॥ ॥फलेचास्लेचोन देवता॥ ॐ पं
सरस्वती नारायनादि देव देवीभ्यः पादु॥ २॥ योनि

मुद्रा॥ विंदु॥ ३॥ ॥बलिमूले॥ ॐ हेतुकादिभ्यः बलिं
॥ॐ पुन्नागादिभ्यः बलिं॥ ॐ ब्रह्माण्यादिभ्यः बलिं॥
ॐ असितांगादिभ्यः बलिं॥ ॐ रुद्रचण्डादिभ्यः बलिं॥
ॐ जयादिभ्यः बलिं॥ ॐ भूचराखेचरावनचराजलचर
दिप [illegible] चतुष्पदादिभ्यः बलिं॥ [illegible] ॥ डाकिनी
पक्षीच तुः पंचाध्वरोषधि [illegible] नक्षत्र दशादि
भ्यः बलिं॥ ॥[illegible] यवबलि॥ ॐ पं सर्वपीठ पर्याग्नि
गृहद्वारमेव च॥ क्षेत्रोपक्षेत्रसंदोहा सर्वदिग्भाग संस्थिता

योगिनीयोगवीराणां सर्वे तत्र समागताः॥ इदं पर्वं मत
बकं श्रीनाथो वरदो मम॥ ये भक्त्याः शासने देवि गुरुरूप
दाचे नेरताः॥ सर्वसिद्धिप्रसादेन मे देवी तेषां भवेत्सदा
वीराणां योगिनीनां च यो द्विष्यंति महीतले॥ ते दत्तात्रेय
वलिं देवि समयाचारमेलके॥ श्रुतिस्मृतिमनः पुष्टिमं
समदोऽस्थिजीवितं॥ निष्कृतयं तु दुष्टानां योगिनीगणा
कुला॥ ककारादि कसत्वानि दुर्निमित्तानि भाषिता॥ ओं

कारादि पुरपीठस्त्रयः सारः प्रकीर्तिताः॥ औषधीभानु
संदोहा दिशासु विदिशासु च॥ महापातालभुवनान्ते सर्व
तत्रांतरेषु च॥ योगिनीयोगमुक्तान्या समये यतिष्ठंतु मा
धकाः॥ वीरक्रमेषु वीरेन्द्रः सत्यानि ष्ठंतु देवता॥ सिद्धम्
पुत्रिका चार्याः साधकाः क्षितिशायिनः॥ नगरे वाथवा
प्रेवा अरण्यां वा मारे हरे॥ वापी कूपे कहूसे वा श्मशाने म
नमराले॥ नानारूपधरास्यापि वटजो विविधानि चा॥ ते
पि सर्वविसंतु स्वावासिंगकं नु सर्वतः॥ सरणागतो प्यहं

तेषां सर्वमेतत्फलप्रदं ॥ प्रारब्धं यन्मया कर्म यत्करिष्या
मि यत्कृतं ॥ बलिपुष्पप्रदानेन संतुष्टा मम चिंतिता ॥ स
र्वकर्माणि सिद्ध्यंति सर्वदोषप्रशांतये ॥ शिवशक्तिप्रसा
देन श्रीकुब्जां त्वां नमाम्यहं ॥ ॥ अथादि ॥ वाक्य ॥ ह्स्रामि
ह्रुं देहि २ शांतिं कुरु २ भैरवरूप ममतु हर २ कुरु २ ल २ बा
हि २ पिशितं पललओदन माहिन बलिं गृह्ण २ स्वाहा ॥
त्वाहासिये ॥ नित्यर्चनयाये ॥ ॥ सिद्धपूजा ॥ ऐं परौ
सौं सर्वसौभाग्यश्री ह्रौं सौं पादुं ॥ ३ ॥ वलि ॥ ॥ सगंधां

पूजा ॥ ऐं प भ्रां स्हां अश्वत्थपादुकान्वितं जीविपादुं ॥ ३
वलि ॥ ॥ [illegible] प गुगुरि ॥ ऐं अगुरु गुग्गुरु श्रीवक
र्द्धसमुत्पन्न [illegible] धूपोयं ॥ धूपवासस्य सर्वेषां धूपो य
प्रतिगृह्यतां ॥ ॥ मत विद्या ॥ ऐं अंतस्तेजो बहिस्तेजस
की कृत्य जगत्पते ॥ विद्या देवी परां भाम्य दीपं प्रति
गृह्यतां ॥ ॥ समय शोधन ॥ ऐं अस्त्राय फट् ॥ अवगुं
ठनं ॥ ऐं कवचाय हुं ॥ ॥ धेनुमुद्रा ॥ यं १ दां १ र्‍ १ ॥ ३ ॥ वं १०
ॐ प [illegible] ऐं ॥ चक्रवेनमुद्रा ॥ समय ये

ध्याये॥ ऐं मद्यं मांसं च मत्स्यं च मुद्रा मैथुनमेव च॥ ध
धिसिद्धा च संयुक्तं भगवत्यै नमो नमः॥ ॥सिद्धाफल
मधिमसलागंधागोयेध्याये॥ ऐं पक्वान्नं फलनांबूलं
मिष्टान्नं पुंग संयुतं॥ ऋद्धिसिद्धि फलं देहि त्वं सर्वं
परमेश्वरि॥ ॥नायेहेलो॥ जमा॥ क्रीं १०॥ श्रीं १०॥ यां
१०॥ म्लें १०॥ रौं १०॥ ऐं ज्ञा स्मा १०८॥ ॐ क्रीं हूं
फ्रें श्रौं क्रौं नमः १०॥ ब्लूं फ्रं ग्लूं ब्लूं २०॥ ब्लूं १०॥ ड्रों १०

म्लूं स्लूं क्लूं ३०॥ ग्लूं सौं १०॥ ह्लूं १०॥ ॥निन्यया
गुह्य पा॥ १० ॥योनिमुद्रा॥ ॥
लो॥ नमस्त्रिपुरिकायै॥ ध्यान॥ प्रसन्न
शं वदं केशं च गतोक्षं विद्युहारका॥ संपूज्या विधिवद्भक्त्या
नमामि च त्रिदेवता॥ ऐं देवी पूर्वं विशालं च तरुणा शशि
करं भ्रज्वलं त्रिनेत्रं यां देवी योगिनी॥ मिसकं त्वं भयहा
रकं वामुण्डिकारव्यां॥ नमामि श्री विप्रकेशं परमकुरवकं
रयं त्वं कपर्गनं त्वत्त क्षेत्रजकानोहरतु भयशमदं समद

तत्करोतु ॥ ऐं देवं नमामि नरराणां भुवनैकनाथं का
जं नामि नहरिचिः धृतपानपात्रं ॥ घोरातिघोरमपिभु
कुतरत्प्रचण्डस वीर्धिनाशनकं निजभक्तिभाजो ॥
ऐं बंधूकपुष्पदललोहितवर्णकान्तिं मायात्मदात्म
रहस्य नमामि हेर्द्रा ॥ सविभ्रमैश्चलितपिंगलने
नेत्रो पात्रं करेण दधितं शवपूर्णमीड्यो ॥ ऐं आनंदश
क्ति परमं श्रुतिमंत्रगर्भ नत्वा मि हत्पमखिलार्थविधा
हेतुं ॥ शास्त्रांगसाधनकरं परमेशमूर्तिं नत्ये भ्रमं स

कलसिद्धिकरं नमामि ॥ ऐं या शक्ति परमेश्वरी प्रभु
पुः शंभोः त्रिमं ध्यानसु चा ॥ या वाल्मीगुवतीजला त्रिप
थगा या परमस्थाज्ञया ॥ अङ्कि श्री गुह्या कालि त्रिग
णगा रात्रो तथा देवती ॥ वर्णानां च विशेषितां व कुवि
वां शक्तिं परां नौमि तां ॥ ऐं आपदानवनारं तिपरं वि
वीरा दायिनी ॥ द्विषत्रयहरां देवीं सिद्धिलक्ष्मीं नम
म्यहं ॥ ऐं मयूरकेकुदं तत्रैमहाशक्तिरतोन घो ॥ को
मारी हत्पसंस्थाने नौ मायशिनमो स्तुते ॥ ऐं इन्द्रस्य जे ॥

स

महारात्रीनमुद्रे च हंसि त्रीने त्रोमलै दशशतैः परिशोभमाना

पूर्णांनतामनवसंस्थित ध्वजवज्रहस्तामेंद्रांनेमामि गुर

किंन्नरदेववंद्या ॥ ऐं महीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोधृतव

सुंधरे । वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते ॥ ऐं नम

स्ते भीमसेनाय गदापाणि नमोस्तुते ॥ पाण्डुपुत्र नमस्ते

स्तु नमस्ते वायुसूनवे ॥ ऐं गनानां गणपतिं चैव गज

वक्त्रं त्रिलोचनं ॥ प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदाता विना

यकः ॥ ऐं दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषिते ॥

चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते ॥ ऐं नमः शि

वाय शांताय ॥ ॥ नित्यार्चनपाक्षोत्र ॥ ऐं इन्द्रदेवति

वाक्य ॥ अद्य भव भवानी पूजा सम्पूर्णार्थं अर्घं

गन्धपुष्प धूप दीपार्चन विधीन सर्वं विधिपार पूर्णम

स्तु ॥ ॥ पंचविमुद्रा ॥ ॥ ओं मचाडुनकायेदं दनसाडु

नकायेमडुमा चोयि पूजा ॥ स्नान चंदनाक्षत पुष्प

नैवेद्य कायेयां ॥ ॥ पुष्पांजलि ॥ ऐं कालीरवक्रेश्वरी रौद्रं

डाय नमः ॥३॥ ओं ग्रा ॥ ऐं स्वक्रायरवक्रनाथाय शक्तिक
र्णायत न्परः ॥ पत्रुछे दन्तयाशी ग्रुं स्वक्रनाथन मोलते
॥ ॥ ५ गृन्वायातन स्वक्रायया ॥ ४ कान्वं ने ॥ ॥ चीथि स्वानथे
वर्दाप सत्नियन के ॥ ऐं पश्चवेवं दन्तं नमः ॥ ॥ पञ्चोवे
वं ॥ ऐं अस्त्राय फट् ॥ ॥ अवगुण्ठनं ॥ ऐं कवचाय हुं ॥ ॥
लो वनं ॥ यं वं रुः ॥ ऐं वषडादेवता ॥ ॥ जोकिलनं स्वक्रजादे
वीथी का पत्रुयाक्रायेपनेत येमंत्रकने ॥ ऐं पत्रुपाता

यविवना हे विघ्नकर्म शोधीमहि ॥ तन्नो जोवः प्रचोदयात्
ऐं पूर्णा पापभक्षणी स्वाहा ॥ ॥ यजमानन संकल्प ॥ अ
प्रां ॥ ताक्या ॥ पूजा संपूर्णार्थं मेध का गवाक्रि देव
नें वलित्वेन इदं महं पानयिष्ये ॥ ॥ नोते मूहाये
के दक्षिणा धाये ॥ ऐं स्वाये ॥ गुस्वाये ॥ ऐं पञ्चं
पूर्ण तादेवशी गुत्तया उरवयाचिने ॥ अस्त्रा पसर्गं
संपूर्ण मांसे स्नचिरेस्तव ॥ ॥ कों देवीया क्षोनेनया ॥

कर्पूरदीपध्वोयेके॥ तुकंछाये॥ ॥मकस्यां देवजपे॥
मत्तरकी जप॥ स्तोत्रमाहात्म्याया वोने॥ ॥क्षेमास्तुति
अपराधसहस्राणि क्रीयेते हर्निशं मया॥ दासो हमिति
मांम त्वा क्षमस्व जगदंबिका॥ ॥दवयातस्वांतने॥
गुह्येश्वरीत्मागि॥ ॥तर्पणायाये॥ ऐं योगिनीचक्र॥ ॥
आन्नाली बीदा॥ मशाउलेचोंगु स्थान देवीया गुस्थान क
या छुये॥ ऐं अंबे पूर्वगतं॥ ॥न्यासति नाये॥ ऐं अंत्वा

ष्फट्॥ २॥ कालो धनं॥ ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ द॥ हृद
यादि॥ ऐं हृदयाय नमः॥ द॥ चतुपूजा॥ ऐं कुलवं
हेश्वराय नमः॥ ॥अर्घपात्र सचोंगु वली सतये॥
ऐं लिंग क्षरस्वाहा॥ ॥मंडलस्मुद्रान वसि यायो॥ ॥
योनि लि॥ ऐं ह्स्वाहा॥ ३॥ ॥जाकि तंदव कु पादेव
ही संख्या तीनो॥ ऐं भव भवानी पूजा पूजितो सिद्धस्व
पाणपूजा वने॥ स्वानकक्वाये॥ पूज्ये माक्षिथाये

अर्घादि॥ वाक्य॥ पूजासंपूर्णार्थं कृतकर्मसाक्षिणो
श्रीसूर्याय अर्घ्यं नमः॥ पुष्पं नमः॥ ॥नोसिये॥ वि
धुं॥ ३॥ ॥स्वानचंदनमोहिनीसगंधो ह्याउकाप
[illegible]ये॥ ॥सिक्थकादिनीं यातविये॥ ॐ श्री श्र
[illegible]ति नतये॥ ॐ सिंदूरं सिरसाधार्य्यं स्वामिनो
[illegible]विनां॥ मम संतानकामाय वर्द्धते मंगलाय
चे॥ ॥स्वानचंदनमोहिनीसगंधो ह्याउकाप देवया

मे तये मिको॥ पवनसकस्यातं वियेनिये॥ श्रा
धजा॥ दक्षिणा॥ ॥सकस्यातं सह्ययेवियेप्राशन
[illegible]मूरवं विहरे भुराडयाहानंतिये॥ ॥इति श्रीभ
वेभआगौरीस्वरूपूजापद्धतिसमाप्तम्॥ ॥शुभम्
संवत १००७ साल मिति ज्येष्ठ सुदि
५ रोद थ कृष्णपिं वा लालया चक्र
नारायणा वाकुनं दग्य पूजासवा स ते

ध्वमूदनंतुं ४ करबालगुलशुभं॥ ॥ ॥
मोहिनीलक्षणा॥ ५ ध्वजछत्रंतथाचिह्नं
कीर्त्तिसौभाग्यदायकं॥ धनदःकलशश्चैव
दीर्घमायुर्निरोगिनं॥ जिणांकःजलकश्चैव
धनहानिश्चनिश्चितं॥ योनिचक्रंतथाचिह्नं
कंसर्वसिद्धिप्रदायकं॥ विनायकंतथारे
णुंसर्वकामफलप्रदं॥ खड्गत्रिशूलकांतं
कंशत्रूणांचभयंभवेत्॥ पंगलाहकचि
ह्नानिमानुकाविजयीभवेत्॥ सर्वसिद्धिम
वाप्नोतिसर्वसंपददायकं॥ उत्पलानिच
चिह्नानिलक्ष्मीसंपददायकं॥ एतेकजुले
चिह्नानिज्ञातव्यंचशुभाशुभं॥ ॥इति
मोहनीलक्षणा॥ ॥शुभमस्तु॥ ॥ ॥॥

नाये
पोनाये
ईना
जंजका
सिकतो - धूं
नाम - सिकापे
ग्वात - गुगू
बोका - ङगुली
बजि - घाउकाप
सती - नेवघ
गो ६ - नेवघ
यताम - ङङगूस्वां
धि - रेफले
येल - गोजा - ममला
कलि - गो २१ - ग्वा. गोये
साब - माङङ - अजीस्वां १६
साधौ - रेवं १

सिधारि देव माहेश्वरि १

हरासिद्धि देवी १

बालकौमारी द्रुमाखि १

माईश्वरि श्री भवम वानी चण्डेश्वरि मूलस्थान

महादेव १

मोहिनी

सगंधौ

सिद्ध १

लथस

भूज

आलना

यज

केतु इंगुलोह